

# नईदुनिया

## भिंड में यूरिया, माल्ट पाउडर घोलकर बना रहे थे नकली दूध, दो बैग यूरिया, 350 लीटर कैमिकल भी जब्त

Updated: | Sat, 16 Jan 2021 07:30 PM (IST)



भिंड। पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बरोही के सेमरा गांव में दो डेयरियों पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस को माल्ट पाउडर, यूरिया से दूध बनता हुआ मिला। माल्ट पाउडर के बैग और तैयार दूध की केन करब में छिपाकर रखी गई थीं। पुलिस ने 200 किलो माल्ट पाउडर, 350 लीटर आरएम कैमिकल, दो बैग यूरिया जब्त की है। एक

भिंड। पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बरोही के सेमरा गांव में दो डेयरियों पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस को माल्ट पाउडर, यूरिया से दूध बनता हुआ मिला। माल्ट पाउडर के बैग और तैयार दूध की केन करब में छिपाकर रखी गई थीं। पुलिस ने 200 किलो माल्ट पाउडर, 350 लीटर आरएम कैमिकल, दो बैग यूरिया जब्त की है। एक कढ़ाई में घुला हुआ यूरिया मिला है। डीएसपी मुख्यालय मोतीलाल कुशवाहा ने बताया नकली दूध, घी का कारोबार करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने दोनों जगह से आठ सैंपल लिए हैं। इन्हें जांच के लिए भोपाल लैब भेजा जाएगा।

डीएसपी हेडक्वार्टर कुशवाहा ने बताया खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश शिरोमणि के साथ बरोही थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में डेयरी पर छापामार कार्रवाई की है। विक्रम उर्फ पप्पू नरवरिया की डेयरी में तैयार दूध, घी को लोडिंग किया जा रहा था। टीम पहुंची तो कढ़ाही में करीब दो किलो यूरिया घुला हुआ रखा था। मौके से 150 किलो माल्टोडेक्सट्रिन पाउडर, 30 किलो पाम आयल, दो टिन में 30 किलो घी, 250 किलो आरएम कैमिकल, 150 लीटर दूध, 50 किलो क्रीम, दो बैग यूरिया मिला है। यहां तैयार दूध और माल्ट पाउडर को करब में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने यहां से विक्रम नरवरिया को गिरफ्तार किया है। विक्रम की डेयरी से करीब 100 मीटर की दूरी पर पुलिस ने रामवीर सिंह नरवरिया पुत्र हुकुम सिंह नरवरिया की डेयरी पर छापा मारा। यहां से 2 बैग माल्टो पाउडर, एक ड्रम आरएम कैमिकल, 60 किलो घी, 120 किलो क्रीम को जब्त किया है। पुलिस ने यहां से रामवीर सिंह नरवरिया को हिरासत में लिया है। पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की इस कार्रवाई से अंचल में नकली दूध और घी का कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप है।

वर्जन:

मुखबिर की सूचना पर सेमरा गांव में दो डेयरियों पर छापामार कार्रवाई की है। मौके से नकली दूध मिला है। माल्ट पाउडर, कैमिकल और यूरिया के बैग भी जब्त किए गए हैं। दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर कार्रवाई की जा रही है।

मोतीलाल कुशवाहा, डीएसपी, मुख्यालय भिंड।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhind-bhind-news-6653422>